

Centre spends more on key schemes than its cess proceeds

BANIKINKAR PATTANAYAK
New Delhi, May 25

THE CENTRAL GOVERNMENT has spent much more than what it got via several cesses, including the road and infrastructure one, a top source said on Wednesday, amid allegations that it has been using this route to corner a large chunk of funds, thus depriving states of their legitimate revenue share.

- There are allegations that Centre has been using this route to corner a large chunk of funds, thus depriving states of their legitimate revenue share
- Cesses are not part of the divisible tax pool that is shared with states
- The Centre, for instance, collected ₹2.03 trillion in road and infrastructure cess last fiscal but ended up spending ₹2.5 trillion RE



- Importantly, states are the biggest beneficiaries of these projects that are partly-funded by this cess proceeds
- The mop-up from these cesses was as much as ₹56,641 crore in FY17, just before the indirect tax regime was implemented from July 2017

The Centre, for instance, collected ₹2.03 trillion in road and infrastructure cess last fiscal but ended up spending ₹2.5 trillion (RE). "This year, we expect a collection of ₹1.38 trillion and we are likely to spend about ₹2.95 trillion on that account," said the source.

indirect tax regime was implemented from July 2017.

Importantly, states are the biggest beneficiaries of these projects that are partly-funded by this cess proceeds, including Prime Minister Awas Yojana, Sagarmala, the PM Gram Sadak Yojana, investment in NHAI and railway safety, said the source.

"This means that what was otherwise going only to the Centre, is now also shared with the states as per the devolution formula," said the source.

The Centre ceded considerable autonomous fiscal space when the goods and services tax subsumed as many as 18 cesses. The mop-up from these cesses was as much as ₹56,641 crore in FY17, just before the

Moreover, some of the remaining cesses like the health and education cess and the cess for central road and infrastructure fund have funded various important schemes and development activities. Importantly, the Centre has provided more than the actual collection to various

schemes which are funded from these cesses.

While the mop-up under the health and education cess was to the tune of ₹47,307 crore in FY22, the spending was ₹53,846 crore.

In FY23, against the budgeted collection of ₹81,499 crore, the expenditure on this account is estimated to be ₹86,100 crore.

Some of the important schemes that are funded by this cess collection are National Health Mission, PM Poshan and Samagra Siksha.

No change in govt borrowing plan for now

The government aims to rein in FY23 fiscal deficit at 6.4% of nominal GDP, against 6.9% in FY22. The source said talks on adopting a rupee-rouble mechanism to enable swift payment to local exporters supplying to Russia had taken place but "nothing has been finalised yet". Given that even European countries, the biggest buyers of Russian oil and gas, have started paying in the rouble for the purchases, Indian exporters have been seeking a revival of this payment mechanism.

To moderate elevated cement prices, the government is in talks with companies from southern India, who have unutilised capacity and can ramp up production to cater to states facing a shortage. The cement industry there isn't seeking any fiscal incentive but asking for steps to keep logistics costs reasonable. "Talks are also on to see if the supplies can be made through the sea route, if transportation on rail or road is expensive," said the source.

The slew of measures initiated by the Centre on Saturday, including a fuel tax cut, will have salutary impact on inflation. However, given that global factors such as the Ukraine war and Covid-induced lockdowns in parts of China have exacerbated the price pressure, a collapse in inflation in India, too, hinges on the easing of these external headwinds, said the source.

There is no proposal yet to raise the inflation band under the central bank's targeting

framework from the current 2-6%, despite speculations to the contrary, added the source. Retail inflation hit a 95-month high of 7.79% in April, having breached the upper band of the RBI's target for a fourth straight month.

The government is looking to raise additional revenues as extra expenditure over the FY23 Budget estimate is seen at about ₹2 trillion. This is because of additional fertiliser subsidy outlay of ₹1.1 trillion, the free grains scheme that will cost ₹80,000 crore in the first half of the year and the ₹200/cylinder LPG subsidy for Ujjwala beneficiaries announced recently. There is also a likelihood of the free grain scheme staying through the current fiscal year, if not beyond.

The excise duty cuts on auto fuels on last Saturday would result in a revenue loss of about ₹85,000-90,000 crore during the remainder of the current fiscal. The revenue loss from other steps like import duty cuts on various industrial inputs like naphtha, select primary steel items, coking coal and edible oils are seen to be a few thousand crores. Still, many analysts see the Centre's net tax receipts to be higher than the respective Budget estimate by a little over ₹1 trillion, thanks to increased revenue buoyancy.

HZL stake sale in tranches

Recently, the Centre and Vedanta (current promoter of HZL) had decided to mutually end an arbitration concerning the second call option demanded by Vedanta in the residual stake sale.

In 2002, Vedanta (earlier

FROM THE FRONT PAGE

known as Sesa Sterlite) had bought a 26% stake in HZL, India's largest zinc/lead miner. It exercised the first call option in 2003 and acquired an 18.9% additional stake in HZL. Vedanta later acquired another 20% stake in the company through an open offer, increasing its shareholding to 64.92%.

To acquire the government's remaining 29.5% share in HZL, it had exercised the second call option in 2009, but this was rejected by the government. Following this, Vedanta initiated arbitration proceedings against the government in the same year.

Vedanta could bid for a 5% stake when the government sells its residual stake in HZL, the company's chairman Anil Agarwal had said earlier.

The government is scouting for additional revenues as extra expenditure over the Budget estimate is seen at about ₹2 trillion on account of higher subsidies on fertiliser, free grains scheme and LPG subsidy for Ujjwala beneficia-

ries in FY23. The excise duty cuts on auto fuels on last Saturday would also result in a revenue loss of about ₹85,000-90,000 crore during the little over 10 months left in the current fiscal.

Besides some extra borrowing, finance ministry officials are banking on additional tax revenues to cover bulk of the extra expenditure and also partly by raising more resources via government disinvestment programme in FY23. There is an expectation that the disinvestment target of ₹65,000 crore will be exceeded by around ₹20,500 crore, given the receipts from LIC IPO, which was not budgeted.

Besides HZL, topping the government's disinvestment agenda will be privatisation of IDBI Bank and Container Corporation in this fiscal, department of investment public asset management secretary Tuhin Kanta Pandey had told FE last week. It may also look at offloading a part of the indirectly-held stake in private-sector firm ITC. The government may also sell its stake held via the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) in Axis Bank at

opportune times this year, besides trying to complete sale of Shipping Corporation of India (SCI).

SUUTI's 7.92% stake in ITC is worth about ₹27,300 crore at present and 1.55% stake in Axis Bank is worth ₹3,200 crore at the current market prices.

The proposed 30.8% stake sale in the multi-modal logistics company ConCor was worth about ₹11,700 crore at the current market prices.

Expression of interest (EoI) for IDBI Bank and financial bids for SCI are likely to be invited soon. Currently, LIC (49.24%) and the government (45.48%) together hold 94.78% stake in IDBI Bank. The Centre's stake in IDBI Bank is worth about ₹16,400 crore. The proceeds from IDBI Bank will depend on how much it sells in the banks LIC will also dilute stake in the lender.

BPCL's privatisation, which has been held up for over a year, has hit a dead-end, as potential investors have turned more sceptical of "the lack of pricing freedom" with state-owned fuel retailers, besides the global shift for greener energy.

SHAREKHAN BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED					
Regd. Office: The Ruby, 18th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028.					
CIN No. U65920MH2004PLC149518; www.sharekhan.com					
Tel: 022-6750 2000; Fax: 022-6748 1899; companysecretarial@sharekhan.com					
Extract of audited standalone financial results for quarter and year ended 31 March 2022					
(Amounts are in Rs. millions, except per share data)					
S. No.	Particulars	Standalone			
		Quarter ended 31 March 2022	Quarter ended 31 March 2021	Year ended 31 March 2022	Year ended 31 March 2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	248	304	1,407	1,033
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	133	179	836	614
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	133	179	836	614
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	103	128	638	456
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	102	128	638	456
6.	Paid up Equity Share Capital	4,186	4,186	4,186	4,186
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,336	696	1,336	698
8.	Securities Premium Account	-	-	-	-
9.	Networth	5,522	4,884	5,522	4,884
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	6,769	2,400	6,769	2,400
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	1.23	0.49	1.23	0.49
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continued and discontinued operations)	0.24	0.31	1.52	1.09
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-

a) The above audited financial results, which are published in accordance with Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, SEBI's Operational circular SEBI/HO/DDHS/PI/CIR/2021/613 dated August 10, 2021, have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2022.

b) The figures for the quarter ended March 31, 2022, are the balancing figures between the audited figures of the full financial year and the reviewed and published year-to-date figures up to the third quarter of the financial year.

c) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.

For and on behalf of the Board of Directors of Sharekhan BNP Paribas Financial Services Limited
CIN: U65920MH2004PLC149518
Sd/-
Amit Arora
Director and CEO
DIN: 02768425

Mumbai
Date: May 24, 2022

SHAREKHAN BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED				
Regd. Office: The Ruby, 18th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028.				
CIN No. U65920MH2004PLC149518; www.sharekhan.com				
Tel: 022-6750 2000; Fax: 022-6748 1899; companysecretarial@sharekhan.com				
Extract of audited consolidated financial results for the year ended 31 March 2022				
(Amounts are in Rs. millions, except per share data)				
S. No.	Particulars	Consolidated		
		Year ended 31 March 2022	Year ended 31 March 2021	Year ended 31 March 2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	1,615	1,270	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	770	601	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	770	601	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	569	445	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	569	444	
6.	Paid up Equity Share Capital	4,186	4,186	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,344	775	
8.	Securities Premium Account	-	-	
9.	Networth	5,530	4,961	
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	6,769	2,400	
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	
12.	Debt Equity Ratio	1.22	0.48	
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continued and discontinued operations)	1.36	1.06	
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	

a) The above audited financial results, which are published in accordance with Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, SEBI's Operational circular SEBI/HO/DDHS/PI/CIR/2021/613 dated August 10, 2021, have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2022.

b) These consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2022. The results for the year ended March 31, 2022 have been audited by the Statutory Auditors of the Holding Company.

c) The consolidated financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.

For and on behalf of the Board of Directors of Sharekhan BNP Paribas Financial Services Limited
CIN: U65920MH2004PLC149518
Sd/-
Amit Arora
Director and CEO
DIN: 02768425

Mumbai
Date: May 24, 2022

SHAREKHAN LIMITED					
Regd. Office: The Ruby, 18th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028.					
CIN No. U99999MH1995PLC087498; www.sharekhan.com					
Tel: 022-6750 2000; Fax: 022-6748 1899; companysecretarial@sharekhan.com					
Extract of audited standalone financial results for quarter and year ended 31 March 2022					
(Amounts are in Rs. millions, except per share data)					
S. No.	Particulars	Standalone			
		Quarter ended 31.03.2022	Quarter ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income	2,917	2,704	11,611	11,416
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary Items)	613	901	3,032	4,330
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	613	901	3,032	4,330
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	452	731	2,254	3,701
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit after tax and Other Comprehensive Income (after tax)]	431	737	2,233	3,693
6.	Paid up Equity Share Capital	587	587	587	587
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	14,423	12,631	14,423	12,631
8.	Securities Premium Account	4,093	4,093	4,093	4,093
9.	Networth	15,010	13,218	15,010	13,218
10.	Outstanding Debt	11,269	3,984	11,269	3,984
11.	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-
12.	Debt Equity ratio	0.75	0.30	0.75	0.30
13.	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic / Diluted (in Rs.) (not annualised)	7.70	12.44	38.37	63.00
14.	Capital Redemption Reserve	30.00	30.00	30.00	30.00
15.	Debt Service Coverage Ratio	0.07	0.24	0.30	1.08
16.	Interest Service Coverage Ratio	5.22	28.74	8.73	129.91

a) The above audited financial results, which are published in accordance with Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, SEBI's Operational circular SEBI/HO/DDHS/PI/CIR/2021/613 dated August 10, 2021, have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2022.

b) The figures for the quarter ended March 31, 2022, are the balancing figures between the audited figures of the full financial year and the reviewed and published year-to-date figures up to the third quarter of the financial year.

c) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.

For and on behalf of the Board of directors of Sharekhan Limited
CIN: U99999MH1995PLC087498
Sd/-
Jaideep Arora
CEO & Whole Time Director
DIN: 00056252

Mumbai
Date: 24 May, 2022

SHAREKHAN LIMITED				
Regd. Office: The Ruby, 18th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028.				
CIN No. U99999MH1995PLC087498; www.sharekhan.com				
Tel: 022-6750 2000; Fax: 022-6748 1899; companysecretarial@sharekhan.com				
Extract of audited consolidated financial results for the year ended 31 March 2022				
(Amounts are in Rs. millions, except per share data)				
S. No.	Particulars	Consolidated		
		Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income	13,246	10,791	
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary Items)	3,569	2,884	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3,569	2,884	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,645	2,144	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit after tax and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,623	2,136	
6.	Paid up Equity Share Capital	587	587	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	15,420	13,238	
8.	Securities Premium Account	4,093	4,093	
9.	Networth	16,007	13,826	
10.	Outstanding Debt	18,030	6,330	
11.	Outstanding redeemable preference shares	-	-	
12.	Debt Equity ratio	1.13	0.46	
13.	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic / Diluted (in Rs.) (not annualised)	45.02	36.50	
14.	Capital Redemption Reserve	30.00	30.00	
15.	Debt Service Coverage Ratio	0.24	0.48	
16.	Interest Service Coverage Ratio	5.40	12.83	

a) The above audited financial results, which are published in accordance with Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, SEBI's Operational circular SEBI/HO/DDHS/PI/CIR/2021/613 dated August 10, 2021, have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2022.

b) These consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 24, 2022. The results for the year ended March 31, 2022 have been audited by the Statutory Auditors of the Holding Company.

c) The consolidated financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.

For and on behalf of the Board of directors of Sharekhan Limited
CIN: U99999MH1995PLC087498
Sd/-
Jaideep Arora
CEO & Whole Time Director
DIN: 00056252

Mumbai
Date: 24 May, 2022

• GLOBAL GENERICS • DIAGNOSTICS • FORMULATIONS • SELF HEALTH PRODUCTS

MOREPEN
The Joy Of Growing Together

MOREPEN LABORATORIES LIMITED
(CIN: L24231HP1984PLC006028)
Regd. Off.: Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173 205
Corp. office: 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector-20, Gurugram, Haryana-122016
Tel: +91-1795-266401-03, 244590, +91-124-4892000, Fax: +91-1795-244591
Website: www.morepen.com, E-mail: investors@morepen.com

NOTICE OF EXTINGUISHMENT OF PREFERENCE SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that the following Preference Share Certificate(s) of Morepen Laboratories Limited ("Company") had been extinguished on account of variation of rights of the holders of 97,35,201, 0.01% Optionally Convertible Preference Shares of ₹100/- each ("OCPS") and 17,30,000, 0.01% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹100/- each ("CRPS"), by issue and allotment of, in aggregate, 114,65,201 0.01%, Compulsorily Convertible Preference Shares of ₹100/- each ("CCPS") on 9th May, 2022.

The following shares were in physical form and hence extinguished, whereas the shares which were in demat form had been debited from the records of depositories:

Folio No	Share Certificate No.	Distinctive No.		No. of Shares	Name of Shareholder(s)	Type of Shares
		From	To			
27	38	532238	1355989	8,23,752	Stressed Assets	OCPS
	72	11072650	11209941	1,37,292	Stabilisation Fund	OCPS
28	39	1355990	1498343	1,42,355	The South Indian	OCPS
	73	11209942	11233667	23,726	Bank Ltd	OCPS
29	40	1498344	1761743	2,63,400	State Bank of	OCPS
	74	11233668	11277567	43,900	Travancore ¹	OCPS
31	42	1876140	2417474	5,41,335	Oriental Bank of	OCPS
	76	11294008	11376500	82,493	Commerce ²	OCPS
38	49	3807624	3956555	1,48,932	IDBI Bank Ltd.	OCPS
	83	11598088	11620744	22,657		OCPS
39	50	3956556	3969680	13,125	United India Insurance Company Ltd.	OCPS
	41	52	4007630	4157630	1,50,000	Karnataka Bank Ltd.
	86	11629258	11644257	15,000		OCPS
42	53	4157631	4246883	89,253		

नाबालिग का जबरन धर्मांतरण, मौलवी समेत चार लोग गिरफ्तार

कानपुर, 25 मई (भाषा)।

कानपुर जिले के काकादेव क्षेत्र में एक नाबालिग दलित लड़के का जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने के आरोप में पुलिस ने एक महिला, उसके माता-पिता और एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर इस कथित निकाह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस मामले के विरोध में बजरंग दल ने काकादेव थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया था।

पुलिस उपयुक्त (पश्चिमी) बीबीसीटीएस मूर्ति ने बुधवार को बताया कि एक नाबालिग दलित लड़के का अपहरण कराने के बाद उसका जबरन धर्मांतरण करा कर उसका निकाह कराने के आरोप में मंगलवार को मोहम्मद हनीफ, उसकी बीवी जमीला बानो, बेटी सिमरन और निकाह कराने वाले मौलवी तौहीद को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उपयुक्त ने बताया कि इस मामले में काकादेव के थानाध्यक्ष राम कुमार गुप्ता और दारोगा शेर सिंह को जांच में लापरवाही के आरोप में मंगलवार रात निलंबित कर दिया गया। मूर्ति ने बताया कि 16 वर्षीय जिस लड़के के साथ ही यह घटना हुई वह पिछले शनिवार को गोरखपुर स्थित अपने घर से भाग कर आया था।

पुलिस उपयुक्त ने बताया कि इस मामले में काकादेव के थानाध्यक्ष राम कुमार गुप्ता और दारोगा शेर सिंह को जांच में लापरवाही के आरोप में मंगलवार रात निलंबित कर दिया गया।

उपायुक्त ने बताया कि जिस लड़के के साथ ही यह घटना हुई वह पिछले शनिवार को गोरखपुर स्थित अपने घर से भागकर आया था और एक दाबे में काम करता था।

और एक दाबे में काम करता था।

उन्होंने बताया कि लड़के की मां ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया है कि उसका बेटा रविवार की रात घर लौट आया था। उसने उसे बताया कि वह सिमरन के घर गया था, जहां उसे खाने में नशीला पदार्थ मिला कर खिला दिया गया। हल्की बेहोशी की हालत में उसका धर्मांतरण कराया गया और उसी हालत में सिमरन से उसका निकाह भी करा दिया गया।

मूर्ति ने बताया कि मामले को शुरुआती जांच में पता लगा है कि सिमरन पहले से ही शादीशुदा है और उसकी तीन साल की एक बेटी भी है। उसका शीर्षक उसे दो साल पहले छोड़ कर चला गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह लड़का सोशल मीडिया के माध्यम से सिमरन के संपर्क में आया था और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी।

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रदर्शन

जम्मू, 25 मई (भाषा)।

कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने बुधवार को प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में कार्यरत समुदाय के सदस्यों को स्थानांतरित करने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शकारी इस महीने की शुरुआत से अपने सहयोगी राहुल भट्ट की आतंकवादियों द्वारा हत्या के बाद विरोध कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी नवगठित कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट (केपीयूएफ) के बैनर तले जम्मू के मध्य में तवी पुल

के पास महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सुरक्षा की मांग की।

केपीयूएफ के एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी सतीश किशोर ने कहा 'हम यहां प्रदर्शन कर रहे प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों का समर्थन करने आए हैं।

उन्होंने कहा कि 12 मई को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके में दिनदहाड़े कार्यालय के अंदर गोली मारकर भट्ट की हत्या को ध्यान में रखते हुए पंडित कर्मचारियों की मांग वाजिब है। किशोर ने कहा कि घाटी में सुरक्षा की स्थिति अनुकूल नहीं है।

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 (AS AMENDED)

TANFAC INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Plot No.14, SIPCOT Industrial Complex, Kudlikadu, Cuddalore, Tamil Nadu, 607005; Corporate Identification Number (CIN): L24117TN1972PLC006271, Tel: +91-4142-239001/239002, Website: www.tanfacc.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 25,93,500 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("OFFER SHARES"), AT A PRICE OF ₹ 595 PER EQUITY SHARE, REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF TANFAC INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY ANUPAM RASAYAN INDIA LIMITED ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED (THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (THE "OPEN OFFER"). NO PERSON IS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER FOR THE PURPOSE OF THIS OPEN OFFER.

This post-offer advertisement ("Post-Officer Advertisement") is being issued by Edelweiss Financial Services Limited ("Manager"), for and on behalf of the Acquirer, in connection with the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company, in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Post-Officer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the:

- public announcement dated 1 February 2022 ("Public Announcement" or "PA");
- detailed public statement dated 7 February 2022 which was published on 8 February 2022 in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Makkal Kural (Chennai edition) and Navshakti (Mumbai edition) ("Detailed Public Statement" or "DPS");
- draft letter of offer dated 15 February 2022 ("DLoF");
- letter of offer dated 9 April 2022 ("Letter of Offer" or "LoF"); and
- pre-offer advertisement cum corrigendum to the detailed public statement dated 20 April 2022 and published on 21 April 2022 in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Makkal Kural (Chennai edition) and Navshakti (Mumbai edition) ("Pre-Officer Advertisement cum Corrigendum").

This Post-Officer Advertisement is being published in all such newspapers in which the Detailed Public Statement was published. Capitalized terms used but not defined in this Post-Officer Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer and the Pre-Officer Advertisement cum Corrigendum.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer.

- Name of the Target Company** : Tanfac Industries Limited
- Name of the Acquirer** : Anupam Rasayan India Limited. No person is acting in concert with the Acquirer for the purpose of the Open Offer.
- Name of the Manager to the Open Offer** : Edelweiss Financial Services Limited
- Name of the Registrar to the Open Offer** : Link Intime India Private Limited
- Open Offer Details**
 - Date of Opening of the Open Offer** : 22 April 2022 (Friday)
 - Date of Closure of the Open Offer** : 6 May 2022 (Friday)
 - Date of Payment of Consideration** : 20 May 2022 (Friday)
- Details of Acquisition:**

SR. NO	PARTICULARS	PROPOSED IN THE OPEN OFFER DOCUMENT		ACTUALS	
7.1	Offer Price (per equity share)	₹ 595		₹ 595	
7.2	Aggregate number of shares tendered	25,93,500*		83,329	
7.3	Aggregate number of shares accepted	25,93,500*		83,279	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share)	₹ 1,54,31,32,500*		₹ 4,95,51,005	
7.5	Shareholding of the Acquirer before agreements/Public Announcement (No. and %)	Nil		0.00%	
7.6	Shares acquired by way of agreements				
	• Number	24,89,802		24,89,802	
	• % of the Voting Share Capital	24.96%		24.96%	
7.7	Shares acquired by way of Open Offer				
	• Number	25,93,500*		83,279*	
	• % of the Voting Share Capital	26.00%*		0.83%*	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement*				
	• Number of shares acquired	Nil		Nil	
	• Price of the shares acquired	N.A.		N.A.	
	• % of the Voting Share Capital	N.A.		N.A.	
7.9	Post-offer shareholding of Acquirer				
	• Number	50,83,302*		25,73,081	
	• % of the Voting Share Capital	50.96%*		25.80%	
7.10	Pre and Post-offer shareholding of the public				
	• Number	48,90,198	22,96,698*	48,90,198	48,06,919
	• % of the Voting Share Capital	49.02%	23.02%*	49.02%	48.19%

- Notes:**
- Assuming full acceptance under the Open Offer.
 - Except those Equity Shares specified in Sr. No. 7.6 above.
 - Out of the above, 350 Equity Shares acquired in the Open Offer in physical mode are in the process of being transferred in the name of the Acquirer.
- The Acquirer and its directors accept full responsibility for the information contained in this Post-Officer Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company and/or the Sellers), and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer.
 - This Post-Officer Advertisement will also be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in) and BSE (www.bseindia.com) and at the registered office of the Target Company.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager	Registrar to the Open Offer
<p>Edelweiss Financial Services Limited 6th Floor, Edelweiss House Off. C.S.T Road, Kalina Mumbai - 400 098. Tel: +91 22 4009 4400 Fax: +91 22 4086 3610 Email: tanfac.openoffer@edelweissfin.com Contact Person: Lokesh Shah SEBI Registration Number: INM0000010650 CIN: L99999MH1995PLC094641</p>	<p>Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 Tel: +91 22 4918 6200 Fax: +91 22 4918 6195 Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Mr. Sumet Deshpande E-mail: tanfac.officer@linkintime.co.in SEBI Registration Number: INR0000040568 CIN: U67190MH1999PTC118368</p>
Place: Surat Date: 25 May, 2022	

Acfactors 88



MOREPEN LABORATORIES LIMITED

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Off.: Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173 205

Corp. office: 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector-20, Gurugram, Haryana-122016

Tel: +91-1795-266401-03, 244590, +91-124-4892000, Fax: +91-1795-244591

Website: www.morepen.com, E-mail: investors@morepen.com

NOTICE OF EXTINGUISHMENT OF PREFERENCE SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that the following Preference Share Certificate(s) of Morepen Laboratories Limited ("Company") had been extinguished on account of variation of rights of the holders of 97,35,201, 0.01% Optionally Convertible Preference Shares of ₹100/- each ("OCPS") and 17,30,000, 0.01% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹100/- each ("CRPS"), by issue and allotment of, in aggregate, 114,65,201 0.01%, Compulsorily Convertible Preference Shares of ₹100/- each ("CCPS") on 9th May, 2022.

The following shares were in physical form and hence extinguished, whereas the shares which were in demat form had been debited from the records of depositories:

Folio No	Share Certificate No.	Distinctive No.		No. of Shares	Name of Shareholder(s)	Type of Shares
		From	To			
27	38	532238	1355989	8,23,752	Stressed Assets	OCPS
	72	11072650	11209941	1,37,292	Stabilisation Fund	OCPS
28	39	1355990	1498343	1,42,355	The South Indian	OCPS
	73	11209942	11233667	23,726	Bank Ltd	OCPS
29	40	1498344	1761743	2,63,400	State Bank of	OCPS
	74	11233668	11277567	43,900	Travancore ¹	OCPS
31	42	1876140	2417474	5,41,335	Oriental Bank of	OCPS
	76	11294008	11376500	82,493	Commerce ²	OCPS
38	49	3807624	3956555	1,48,932	IDBI Bank Ltd.	OCPS
	83	11598088	11620744	22,657		OCPS
39	50	3956556	3969680	13,125	United India Insurance Company Ltd.	OCPS
41	52	4007630	4157630	1,50,000	Karnataka Bank Ltd.	OCPS
	86	11629258	11644257	15,000		OCPS
42	53	4157631	4246883	89,253	UTI Bank Ltd. ³	OCPS
	87	11644258	11656158	11,901	Axis Bank Ltd.	OCPS
44	95	3582624	3807623	2,25,000	Punjab National Bank	OCPS
	96	11560588	11598087	37,500		OCPS
45	56	4890328	4977700	87,373	IFCI Ltd.	OCPS
	98	11662949	11741951	79,003		OCPS
46	57	4977701	5103405	1,25,705	Karur Vysya Bank	OCPS
47	58	5103406	5619305	5,15,900	UCO Bank	OCPS
50	61	5963239	6065038	1,01,800	Lord Krishna Bank Ltd. ⁴	OCPS
51	92	6065039	6169312	1,04,274	Industrial Investment Bank of India Ltd.	OCPS
53	64	6910813	7740274	8,29,463	Sicom Ltd.	OCPS
54	65	7740275	8240274	5,00,000	UTI Bank Ltd. ³	CRPS
55	66	8240275	9240274	10,00,000	Oriental Bank of Commerce ²	CRPS
56	67	9240275	9256874	16,600	General Insurance Corporation of India	CRPS
57	94	9256875	9270274	13,400	The Oriental Insurance Company Ltd.	CRPS
58	70	9853277	11032276	11,79,000	The Bank of Nova Scotia	OCPS
59	90	11741952	11890951	1,49,000	Bank of Baroda	OCPS
60	91	11890952	11965201	74,250	Bank of India	OCPS
61	91A	90001	290000	2,00,000	Blue Sky Securities Pvt. Ltd.	CRPS
62	99	290001	532237	2,42,237	State Bank of India	OCPS
	100	11032277	11072649	40,373		OCPS

- Merged into State Bank of India
- Merged into Punjab National Bank
- Merged into Axis Bank Ltd
- Merged into HDFC Bank Ltd.

The public is hereby cautioned against purchasing or dealing in any way, with the above mentioned share certificate(s) as no claim will be entertained by the Company. Also, the Company will not be responsible for any loss or damage caused to any person by dealing in aforesaid share certificate(s).

For Morepen Laboratories Limited

Place : Gurugram
Date : 24/05/2022

sd/
Chairman and Managing Director

तलाक-ए-हसन के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 25 मई।

तलाक-ए-हसन के खिलाफ पत्रकार बेनजीर हीना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जल्द सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख अगले हफ्ते करें। याचिकाकर्ता को वकील पंकी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 19 अप्रैल को उसके (याचिकाकर्ता) पति ने तलाक-ए-हसन के तहत उसे पहला नोटिस जारी किया था। इसके बाद 20 मई को दूसरा नोटिस जारी किया गया। अगर अदालत ने देखल नहीं दिया तो 20 जून तक तलाक की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे।

इस पर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि 19 अप्रैल को पहला नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आपने दूसरे नोटिस तक इंतजार किया। हम मामले की सुनवाई जुलाई में अदालत खुलने के बाद करेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी पूछा कि जब यह निजी अधिकार का मामला है तो इसमें जनहित याचिका क्यों दायर की गई।

पंकी आनंद ने कहा कि तलाक ए हसन के वकील के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं। हम कार्यवाही को चुनौती दे रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा, अनुच्छेद 32 के तहत क्यों। पंकी आनंद ने जवाब दिया, शायदा बानो मामले में केवल तलाक ए बिदत के मुद्दे पर विचार किया गया था। तलाक ए हसन को छोड़ दिया गया था। हम इसे चुनौती दे रहे हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रथा भेदभावपूर्ण है क्योंकि केवल पुरुष ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। याचिकाकर्ता यह घोषणा करते हैं कि यह प्रथा असंवैधानिक करार दी जाए क्योंकि यह मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14ए 15ए 21 और 25 का उल्लंघन करती है।

चंदन तस्कर वीरप्पन के बड़े भाई की मौत

कोयंबटूर (तमिलनाडु), 25 मई (भाषा)।

चंदन तस्कर वीरप्पन के बड़े भाई माधियान की बुधवार को तड़के सेलम के सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इरोड की एक माधियान (80) में एक वन रेंजर सेलम केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और एक मई को सीने में तेज सुनाई थी और वह पिछले 34 साल से जेल में था।

इरोड की एक अदालत ने 1987 में एक वन रेंजर के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और वह पिछले 34 साल से जेल में था। पुलिस ने बताया कि वह हत्या के एक मामले में मैसूर में जेल की सजा काट चुका था। पुलिस ने कहा कि मूल रूप से सेलम जिले के मेडूर के पास कुदुमलाईकुडल के निवासी माधियान के परिवार में उसकी पत्नी है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में दो दशकों से अधिक समय तक वन क्षेत्रों में मनमानी करने वाले वीरप्पन को 2004 में एसटीएफ कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया था।

PEE CEE COSMA SOPE LTD.
Regd. Office : Padampalaza, Hall No. H1-H2, First Floor, Plot No.5, Sec.-16B, Awas Vikas Sikandra Yojna, Agra - 07 (U.P.) Tel. : 0562-2527330/31/32 Fax : 0562-2527329, E-mail : pccosmailsting@doctorsoap.com CIN : L24241UP1986PLC008344, Website : www.doctorsoap.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2022 ₹ in Lacs

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2022 (AUDITED)	31.12.2021 (UNAUDITED)	31.03.2021 (AUDITED)	31.03.2022 (AUDITED)	31.03.2021 (AUDITED)
1	Total Income from Operations	2553.39	2262.18	8133.59	9330.39	8283.97
	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	18.76	12.81	81.03	228.67	644.18
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	18.76	12.81	81.03	228.67	644.18
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	11.05	10.24	59.66	168.53	476.63
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11.05	10.24	59.66	168.53	476.63
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs.10/-each)	264.63	264.63	264.63	264.63	264.63
7	Earning per share (Quarterly not annualised)					
	Basic (Rs.)	0.40	0.40	2.30	6.40	18.00
	Diluted (Rs.)	0.40	0.40	2.30	6.40	18.00

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for Quarter and Year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the websites of Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.doctorsoap.com). (2) The above Results were Reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 25, 2022. (3) The figures for the quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between Audit figures in respect of the full financial years and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial years, which were subject to Limited Review by the Auditors. (4) Figures for the previous period have been regrouped wherever necessary, to conform to the current period's classification. (5) The Board of Directors of the Company has recommended Dividend @ 10% i.e. Re. 1/- per Equity Share of the face value of Rs. 10 each for the Financial Year 2021-22 subject to the approval of the share holders at the ensuing Annual General